

Date: February 11, 2025

To.

The Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited., P J Towers, Dalal Street,

Mumbai- 400001 Scrip Code: 511605 To,

Listing Department,

National Stock Exchange of India Limited.,

Exchange Plaza 5th Floor,

Plot No. C/1, G- Block, Bandra Kurla

Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Symbol: ARIHANTCAP

Sub: Newspaper Clipping of Published Extract of Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company has published the enclosed extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended on December 31, 2024, in the Free Press (English Edition) and Choutha Sansar (Hindi edition) on February 11, 2025.

Kindly take on record and oblige.

Thanking You

For Arihant Capital Markets Limited

Mahesh Pancholi (Company Secretary) M. No. F-7143

Court blocks US from sending 3 Venezuelan migrants to Guantánamo

ALBUQUERQUE

A federal court on Sunday blocked the Trump administration from sending three Venezuelan immigrants held in New Mexico to Guantanamo Bay Naval Base in Cuba as part of the president's immigration crack-

In a legal filing earlier in the day, lawyers for the men said the detainees "fit the profile of those the administration has prioritized for detention in Guantanamo, i.e. Venezuelan men detained in the El Paso area with (false) charges of connections

with the Tren de Aragua gang." It asked a US District Court in



New Mexico for a temporary restraining order blocking their transfer, adding that "the mere uncertainty the government has created surrounding the availability of legal process and counsel access is sufficient to authorize the modest injunction."

During a brief hearing, Judge Kenneth J Gonzales granted the temporary order, which was opposed by the government, said

China's marriage rate hit a record

low in 2024, continuing a troubling

trend despite the government's ef-

for marriages in China.

pared to the previous year.

Since 2021, China has imposed a

mandatory 30-day "cooling-off"

period for couples filing for divorce,

despite criticism that it could make

it harder for women to leave broken

or even abusive marriages, as per

Despite a slight rise in the birth

rate last year, China's population has

been shrinking for three consecutive

years. The working-age population,

defined as those between 16 and 59.

ported.

Judge Gonzales gave the order, which was opposed by the government, said Vosburgh, an attorney for the three men

Jessica Vosburgh, an attorney for the three men.

"It's short term. This will get revisited and further fleshed out in the weeks to come." Vosburgh told The Associated Press.

Monkey blamed for Sri Lanka nationwide power cut

COLOMBO

A nationwide blackout in Sri Lanka has been blamed on a monkey that intruded into a power station south of Co-

Power is gradually being restored across the island nation of 22 million people, with medical facilities and water purification plants being given priority.

"A monkey has come in contact with our grid transformer, causing an imbalance in the system," Energy Minister Kumara Jayakody told



The blackout started at about 11:00 local time (05:30 GMT) on Sunday, forcing many to rely on generators.

Officials said it may take a few hours to get power back. On social media, people criticised the authorities while

making fun of the incident. "A

rogue monkey knocked out Sri Lanka's entire power grid after triggering a total failure at a substation in Colombo," X user Mario Nawfal wrote.



SYSTEMATIX CORPORATE SERVICES LIMITED

CIN: L91990MP1985PLC002969

Corp. Off: The Capital, "A" Wing, 6th Floor, No.603-606, Plot No. C-70, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 | Ph.: (022) 66198000 Email: secretarial@systematixgroup.in | Website: www.systematixgroup.in Regd. Off: 206-207, Bansi Trade Centre, 581/5, M.G. Road, Indore - 452001 (M.P)

STATEMENT OF THE STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

The Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter 2024 is available on the websites of Bombay Stock Exchange (URL of the filin Company's website www.systematixgroup.in) or scan



Rs. in La

								ns. III Lakiis
CONSOLIDATED						STAND	ALONE	
Three mo	Three month ended Nine		nth ended	Deutlanden	Three month ended		Nine mor	nth ended
31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	- Particular -	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
4,382.46	4,802.40	10,977.30	8,426.36	Revenue from Operations	2,443.10	1,328.30	5,246.65	1,933.00
1,857.88	2,393.13	4,246.28	3,015.43	PAT	1,290.70	557.46	2,158.37	255.70

NOTES: (1) Pursuant to the member's approval received in the Annual General Meeting held on September 26, 2024 for sub-division/split, the Board of Directors of the Company had fixed November 05, 2024 as the Record Date for the purpose of sub-division/split of 1 (One) equity share of the Company having face value of Rs. 10/- (Ten) each into 10 (Ten) equity shares having face value of Rs.1/- (One) each. Accordingly, with effect from November 05, 2024 the revised face value is Rs. 1/- per share and the new ISIN with effect from November

(2) On November 14, 2024 the Company has allotted 67,35,430 Equity Shares of face value of Rs. 1/- each fully paid-up ("Equity Shares") to Non-Promoters, on a preferential basis in accordance with Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended ("SEBI ICDR Regulations"), and other applicable laws, at a price of Rs. 153.10/- (Rupees One Hundred Fifty-Three and Ten paise) per Equity Share (including Premium of Rs. 152.10/-)

For and on behalf of the Board of Directors

Nikhil Khandelwal

Ashok Kumar Jain (Chairman & Managing Director)

DIN: 00184729

(₹ in lacs)

Ecuador's conservative incumbent, leftist lawyer advance to prez runoff

GUAYAQUIL (ECUADOR)

Ecuador will choose its next president in a runoff election after conservative incumbent Daniel Noboa and leftist lawver Luisa González garnered enough votes on Sunday to beat 14 other candidates. The contest, set for April 13,

will be a repeat of the October 2023 snap election that earned Noboa a 16-month presidency.

Noboa and González are now vying for a full four-year term, promising voters to reduce the widespread criminal activity that upended their lives four years ago.

is tied to the trafficking of cocaine produced in neighbouring Colombia and Peru. So many voters have become crime victims that their personal and collective losses were a determining factor in deciding whether a third president in four years could turn Ecuador around or if Noboa deserved more time in

The spike in violence across

the South American country

Noboa, an heir to a fortune built on the banana trade, and González, the protégée of Ecuador's most influential president this century, were the clear front-runners ahead of the election.

Lawyers' protest leads to chaos in Islamabad

Chaos ruled in Pakistan's capital Islamabad once again as lawyers of the country took to the streets on Monday, protesting against a meeting being held at the Supreme Court to finalise names of eight Supreme Court

The Judicial Commission of Pakistan (JCP) is considering elevating eight High Court judges to the Supreme Court in spite of calls from several judges and thousands of lawyers to

lamabad have also been strongly opposing the recent transfers of Court (IHC), terming the move as an attempt to divide the judiciary. Authorities and security blocked and barricaded all routes leading to the Supreme Court and deployed additional forces to handle any situation in case the protest intensifies.

defer the meeting. The legal organisations in Is-

five judges to Islamabad High forces in Islamabad have

forts to encourage young people to marry and have children, CNN re-According to the Ministry of Civil Affairs, only 6.1 million couples reg-

China's marriage rate drops to

record low, upswing of divorces

istered their marriages last year, a 20.5 per cent drop compared to contributing to the overall decline. 2023. This is the lowest number of Meanwhile, the number of people marriages recorded since the minisaged 60 and above continued to try began tracking the data in 1986. grow, now making up 22 per cent of According to CNN, the decline in the total population.

Chinese officials believe that the both marriages and births presents a serious challenge for China, as it decline in marriages is directly faces the effects of a shrinking worklinked to the country's falling birth rates, where social norms and govforce and an aging population, which are putting pressure on its ernment regulations make it chaleconomy. The number of marriages lenging for unmarried couples to in 2024 is less than half of the 13 milhave children. lion registered in 2013, the peak year To address these issues, the gov-

ernment has introduced a variety of Data released on Saturday also remeasures, including financial incenvealed a small increase in the tives and awareness campaigns, to number of divorces in China. In encourage young people to marry 2024, nearly 2.6 million couples filed and have children. for divorce, a rise of 28,000 com-

Officials have also organised blind dating events, and mass weddings, and attempted to curtail the tradition of large "bride price" payments from the groom to his future wife's family that put marriage out of reach for many poor men in rural areas.

Some local governments have even handed out cash incentives for young couples to get mar-

ArihantCapîtal

Date: 10th February, 2025

ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED

(Member of BSE, NSE, NCDEX, MCX, DP-NSDL & CDSL)

CIN- L66120MP1992PLC007182, Email: compliance@arihantcapital.com, website: www.arihantcapital.com Regd. Office: 6, Lad Colony, Y. N. Road , Indore - 452001, Phone No: 0731-4217100 Fax: 0731-4217199

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2024

			Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
S.	Particulars 3		30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	5178.82	7637.94	7265.63	20097.70	17141.69	23514.36
2.	Profit / (Loss) before Share of Profit / (Loss) of Associates, Tax & Exceptional Item	1123.18	2403.89	2475.76	5928.64	5825.14	9058.47
3.	Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Item	1297.26	2539.36	2569.91	6346.81	6007.46	9268.75
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items & Minority Interest)	1225.41	1993.99	1958.72	5100.15	4584.99	7051.04
5.	Total Comprehensive Income for the period	1228.43	1996.85	1958.82	5103.84	4586.46	7012.03
6.	Paid-up Equity Share Capital	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13
	(Face Value Per Share)	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of Previous Accounting Year		(*)		-	-	*
8.	Earnings Per Share (₹)						
	Basic & Diluted EPS (₹) Excluding extraordinary items	1.18	1.92	1.88	4.90	4.41	6.77
	Basic & Diluted EPS (₹) Including extraordinary items	1.12	1.83	1.88	4.67	4.41	6.77

1. The above Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the Meeting held on February 10, 2025. The Statutory Auditors have conducted Limited Review of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

2. The Consolidated Financial Results for the Quarter ended December 31, 2024 include the following entities of the group:

(i) The Consolidated Results of the Company include unaudited results of the subsidiaries - Arihant Futures and Commodities Limited (100%), Arihant Financial Services Limited (100%), Arihant Insurance Broking Services Limited (100%) (till 24th October, 2024), Arihant Capital (IFSC) Limited (100%) (ii) The Management certified the financial results of associate, Electrum Capital Private Limited (27.23%), in India. The financial result

of Electrum Capital Private Limited does not constitute a material component of the consolidated financial results and these have been consolidated as associate, under equity method of accounting as per Indian Accounting standard. 3. The Company has sold entire shareholding of its wholly owned subsidiary Arihant Insurance Broking Services Limited (AIBSL) on October

24, 2024 for a total consideration of ₹438.07 Lacs. The Company has recognized gain of ₹329.90 lacs in exceptional item in the Consolidated Financial Statements. 4. During the Quarter ended September 30, 2024, the company has issued 50,00,000 (Fifty Lakh) Convertible Warrants on a preferential

basis at an issue price of ₹ 68.50 per warrant to entities belonging to promoter group approved by Board of Directors in their meeting held on May 25, 2024 and approved by members at their Extra Ordinary General Meeting held on June 21, 2024, and consequent to the in-principal approval granted by BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited vide their respective letters dated August 05, 2024 and August 02, 2024 respectively. Each Convertible Warrant entitles the holder to convert one (1) warrant into one (1) equity share

5. During the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2024, the company redeemed 1932 no. of Non-Convertible Secured 9.5% Debentures having face value of ₹1,00,000/each amounting of ₹1932 lacs which was repayable at the expiry of term of 1 year.

6. Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year

Key Standalone Financial Information is given below: Nine Months Ended Year Ended **Quarter Ended Particulars** 31.12.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited **Total Income from Operations** 5090.35 7372.12 7106.74 19596.46 16652.63 22893.53 **Profit Before Tax** 1460.18 2281.88 2393.70 6055.15 5573.39 8699.13 1064.64 1765.89 4538.18

and on the company's website viz. www.arihantcapital.com and can be accessed by scanning the Quick Response Code provided below.



7. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com By or on behalf of the Board

Place: Indore Date: February 10, 2025

STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2024

Bicholi Mardana, Indore - 452016 (M.P.) India

CIN: L51909MP2007PLC066484

BRAND CONCEPTS LIMITED

Reg Office: 4th Floor, UNO Business Park, Indore Bypass Road ,Oppo Sahara City,

						,	diffusion and a management
	93 (86 500)	C	uarter Ende	d	Nine mo	nths ended	Year Ended
Sr. No	Particulars	31/12/2024 Unaudited	30/09/2024 Unaudited	31/12/2023 Unaudited	31/12/2024 Unaudited	31/12/2023 Unaudited	31/03/2024 Audited
1	Total Income from Operations	6,702.31	7,073.31	6,594.11	20,724.30	19,366.55	25,200.18
2	Net Profit for the Period (before Tax and extraordinary Items)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44
3	Net Profit for the Period before Tax (after extraordinary Items)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44
4	Net Profit for the Period after Tax (after extraordinary Items)	178.41	178.09	306.16	528.67	989.28	1,095.85
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit for the						
	period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	188.32	169.19	308.03	533.37	993.45	1,103.29
6	Paid-up equity share capital (Face Value of the share @ 10 Rs. / Share)	1,121.78	1,121.78	1,110.78	1,121.78	1,110.78	1,113.28
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of	100.00		77			85-0
	Previous accounting year.						4,513.17
8	Earning Per Share (before extraordinary items)						
	(of Rs. 10/- each) (not annualised)						
	a) Basic	1.59	1.51	2.83	4.73	9.16	10.07
	b) Diluted	1.55	1.49	2.76	4.61	8.92	9.81

c.		C	uarter Ende	d	Nine mo	nths ended	Year Ended
Sr. No	Particulars	31/12/2024 Unaudited	30/09/2024 Unaudited	31/12/2023 Unaudited	31/12/2024 Unaudited	31/12/2023 Unaudited	31/03/2024 Audited
1	Total Income from Operations	6,702.31	7,073.31	6,594.11	20,724.30	19,366.55	25,200.18
2	Net Profit for the Period (before Tax and extraordinary Items)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44
3	Net Profit for the Period before Tax (after extraordinary Items)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44
4	Net Profit for the Period after Tax (after extraordinary Items)	178.41	178.09	306.16	528.67	989.28	1,095.85
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit for the						
	period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	188.32	169.19	297.70	533.37	972.45	1,103.29
6	Paid-up equity share capital (Face Value of the share @ 10 Rs. / Share)	1,121.78	1,121.78	1,110.78	1,121.78	1,110.78	1,113.28
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of						
	Previous accounting year.	12	2				4,513.17
8	Earning Per Share (before extraordinary items)						
	(of Rs. 10/- each) (not annualised)						
	a) Basic	1.59	1.52	2.74	4.73	8.96	10.07

CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER,2024

Notes: 1. The above results after being reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 10th February, 2025. 2. The above is an extract of the detailed format of Standalone & Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended on 31 December, 2024, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.brandconcepts.in The same can be accessed by scanning the below given QR code:

1.55

1.49

Date: 10th February,2025 Place: Indore

b) Diluted



For Brand Concepts Limited Prateek Maheshwari **Managing Director** DIN: 00039340

9.81



10वीं-12वीं के फेल छात्रों को फिर मिलेगा परीक्षा का मौका

मोपाल.(निप्र)। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से १०वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बडा फैसला लिया है। इस फैसले से १०वीं और १२वीं में पढ रहे बच्चों के थोडी राहत मिलेगी। १०वीं और १२वीं की बोर्ड परीक्षाओं से अब पूरक परीक्षा देने के नियम को खत्म किया जा रहा है। बच्चे अब पुरक परीक्षा देने की जगह दो मेन एग्जाम देंगे। दूसरा एग्जाम फेल हए बच्चों के लिए कराया जाएगा। दरअसल, बोर्ड एग्जाम में जो स्टूर्डेट्स फेल हो जाते हैं या जिनके अच्छे मार्कस नहीं आते या फिर किसी कारणवश स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाता। उन बच्चों को पूरक परीक्षा देने को कहाँ जाता था। लेकिन अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब पुरक परीक्षा देने के नियम को खत्म किये जा रहे हैं। दो मेन एग्जाम को कन्डक्ट कराने का फैसला लिया गया है। इस परीक्षा को परक परीक्षा की जगह पर कराया जाएगा। बता दें मध्य प्रदेश बोर्ड ने १०वीं और १२वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम कराने की घोषणा की है। बता दें कि इस परिक्षा की रिजल्ट आने के बाद ही जुलाई में दुसरा एग्जाम कन्डक्ट कराया जाएगा। दोनों कराए गए मेन एग्जाम में सब्जेक्ट में आए अच्छे नंबरों के आधार पर ही स्टूडेंट्स की मेन मार्क लिस्ट तैयार की जाएगी दो मेन एग्जाम का मॉडल गुजरात और छत्तीसगढ़ में पिछले साल से ही लागु हो चुका है। हर साल १०वीं और १२वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब १८ लाख स्टूडेंट्स शामिल होते हैं।

किसान होंगे दाउनशिप के मालिक,जल्द लागू होगी पॉलिसी

मोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार राज्य में इटिग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी लागु करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही इस पॉलिसी को मंजरी दे सकती है। सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। खासकर उन किसानों के लिए जो शहरी क्षेत्रों के पास स्थित हैं। इस नई पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीनों का एक पल तैयार करने का अवसर मिलेगा। जिससे वे खुद टाउनशिप डेवलप करने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रोजेवट को शहरीकरण के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी पहल मानी जा सकती है। किसान अपनी जमीनों का पुल तैयार करके, आपसी सहमति से एक ग्रुप या कंपनी बना सकते हैं। इस पहल से किसानों को बिना एग्रीमेंट के टाउनशिप डेवलप करने का मौका मिलेगा। उन्हें किसी अतिरिक्त प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह उन किसानों के लिए खासतौर पर लामकारी होगा। जिनके पास छोटी जमीनें हैं और वे एकत्रित होकर बडे प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं।

सी.एम. राइज स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन

आष्टा,(निप्र)। सी.एम. राइज शासकीय उत्कृष्ट उमावि आष्टा में पधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पेरक उदबोधन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया।

विधायक गोपाल सिंह डंजीनियर के मार्गदर्शन में परीक्षा पर चर्चा कार्यकम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष पतिनिधि रायसिंह मेवाडा.



भाजपा नगर अध्यक्ष अंजनि विषाल चौरसिया, व्यापार महासंघ अध्यक्ष रूपेश राटौर. पाषर्द रविन्द्र शर्मा आदि उपस्थित थे। इसके पश्चात विद्यालय के प्राचार्य सितवत खान ने अतिथियों का स्वागत किया और परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा बताई और कहा कि परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन की कला सिखाई जा रही है। यदि तनाव का सही उपयोग किया जाए तो यह लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ही कारगर साबित होता है।

BRAND

चुकता इक्विटी शेवर पूंजी (शेवर का अंकित मूल्य @ 10 स्पये/शेवर)

प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पहले)

(र. 10/- प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)

क विशिक

बी) परासा

पिछले लेखा वर्ष की बैलेंग शीट के अनुसार पुनर्युल्याकन रिकर्व को छोड़कर रिकर्व।

महाकुंभ में उमड़े जनसैलाब से एमपी के जिलों में बढ़ा दबाव

■ टैफिक जाम पर बोले मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 🔳 लगातार यूपी सरकार के संपर्क में हम

भोपाल.(निप्र)। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम की परेशानी का सामना करना पड रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा वाले इलाकों में प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर कई किमी लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। महाकुंभ जाने वाले लोगों से एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लोगों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही प्रशासन को भी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन शाही स्नान के कारण ट्रैफिक समस्या और बढ सकती है। मख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि प्रयागराज का जो क्षेत्र मध्यप्रदेश से सटा हुआ है। विशेष रूप से रीवांचल इलाका, यहां से अन्य राज्यों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में महाकंभ पहुंच रहे हैं। इसलिए वाहनों के आवागमन से सड़कों पर यातायात का कछ दबाव बना हुआ है। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन सभी श्रद्धालुओं के संपर्क में है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकुंभ यात्रा पर

विदिशा ,(एजेंसी)। नगरपालिका ने

अपने बकायादारों की सूची अब

सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। सबसे

पहले शहर के टॉप 20 बकायादारों की

सूची नगरपालिका परिसर के अलावा

माधवगंज चौराहा, पुरानी नगरपालिका

परिसर और गांधी चौक पर लगाई गई है।



निकले श्रद्धालुओं से अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक वे एक-दो दिन इस मार्ग से आगे बढने से बचें। महाकुंभ श्रद्धालुओं का सैलाब उमडा है. उससे व्यवस्थाओं को बनाने में चनौतियां सामने आ रही हैं। इनसे निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पुरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि सीमा क्षेत्रों में जहां भी जाम है, वहां यात्रियों के लिए पानी, भोजन और आवास व्यवस्थाएं

सीएम मोहन यादव ने अचानक बलाई बैठक-श्रद्धालुओं की बढती संख्या को देखते हुए मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव भी अलर्ट मोड पर हैं। सोमवार दोपहर में अचानक युपी के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की बैठक सीएम ने बुलाई और पुरी स्थिति की समीक्षा की है। इसके बाद माना जा रहा है कि श्रद्धालओं के लिए एमपी सरकार कुछ और खास इंतजाम करने जा रही है। सीएम ने सोमवार को अपील किया और कहा

कई सालों से नहीं चुकाए टैक्स

चौराहों पर टांगे 20 बड़े

बकायादारों के नाम

सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर का कहना है कि 20 हजार से अधिक संपत्तिकर के करीब 400

बकायादार हैं। बता दें कि नगरपालिका को जलकर, संपत्तिकर, दुकान किराया आदि सभी तरह

के करों की करीब 32 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं पर बकाया है। यदि यह राशि मिल

जाती है तो नगरपालिका इस राशि से शहर में विकास कार्य करा सकती है इसके अलावा अन्य

बकायादारों में सेठ शिताबराय लख्मीचंद जैन पारमार्थिक ट्रस्ट, उपभोक्त केन्द्र बीएसएनएल

कार्यालय, बड़जात्या जैन शिशु मंदिर अस्पताल रोड, बीएसएनएल टॉवर शेरपुरा, वार्ड 21

निवासी बीएम श्रीवास्तव, (दुकान) जैन मंदिर बड़ा बाजार, राजमल बड़जात्या अस्पताल रोड,

व्यवस्थापक माहेश्वरी धर्मशाला तलैया, सेठ शितावराय लक्ष्मीचंद जैन ट्रस्ट, शक्ति फूड्स

यूनिकल पेस्टीसाइड्स प्रायवेट लिमिटेड, वार्ड क्रमांक आठ कोसाबाई प्रेमसिंह कुशवाह, बेतवा

वेयर हाउस मिजार्पुर, ओंमप्रकाश अरोरा सोंठिया रोड, बेयर हाउस, युवराज क्लब शेरपुरा,

1,121.78 1,110.78 1,121.78 1,110.78

4.73

2.83

1.51

श्रीराम केशव शास्त्री, जैन मंदिर माधवगंज, निर्भय सिंह सांची रोड शामिल है।

कि रीवा के रास्ते प्रयागराज महाकंभ जा रहे देश भर के श्रद्धालुओं की मदद करने के उद्देश्य से एमपी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों भोजन, पानी, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था करें। इसमें प्रशासन भी सहयोग करेगा। तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे संगठनों का उन्होंने अभिनंदन भी किया। मख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में मध्यप्रदेश से प्रयागराज जाने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि श्रद्धाल महाकंभ जाने से पहले पछताछ कर सुनिश्चित कर लें, कि आगे का रास्ता क्लीयर है या नहीं। यदि जाम की स्थितियां न हो, तभी आगे बढें।

कटनी, मैहर और रीवा में रोकी गाडियां-प्रयागराज महाकुंभ में भीड बढ़ने से प्रयागराज जाने वालों को कटनी, मैहर और रीवा में रोका जा रहा है। रातभर से लोग नेशनल हाइवे में फंसे हैं। एक-दो किमी आगे बढने में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है। कटनी जिले के एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि पलिस के जवान प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोक रहे हैं। इससे हाइवे में भी वाहनों की लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धाल परेशान तो हो रहे हैं. लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

महिलाओं के खिलाफ बढते साडबर अपराध

मोपाल,(निप्र)। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पुलिस के लिए पहले से ही चुनौती बनी हुई है। अब महिलाएं सोशल मीडिया पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें अपराध का शिकार बनराया जा रहा है। सोशल मीडिया उनके वीडियो, तस्वीरें और रील साझा करने का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल कर महिलाएं-युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसे अपराध बढ रहे हैं।

एम्स में पहली बार सफल हार्ट ट्रांसप्लांट मरीज से मिले सीएम डॉ. मोहन यादव

अंगदान करने वालों का बनेगा आयुष्मान कार्ड

भोपाल,(निप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एम्स में पहली बार हए सफल हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेंट्ल इंडिया का पहला प्रयोग था। एम्स के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। पुरी टीम को बधाई। सीएम ने कहा मरीज परी तरह से स्वस्थ हैं। अंगदान करने का ये एक उदाहरण है। हेल्थ डिपार्टमेंट को प्राथमिकता से लिया। एयर एंबलेंस की व्यवस्था की। हर दिन कई उदाहरण आ रहे। मरीजों की जान बचाई जा रही है। सीएम यादव ने ये भी कहा कि अंग दान करने वाले व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनेगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त पर उनका सम्मान होगा।

मख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को राज्य सरकार इस दिशा में एयर एंबलेंस की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि एम्स भोपाल में हुआ यह हार्ट ट्रांसप्लांट सेंट्ल इंडिया

का पहला सफल प्रयास था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने मरीज

दिनेश मालवीय से मलाकात की

और वह काफी खुश हैं। भोपाल

एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए

का महत्व स्पष्ट हुआ है।

बता दें कि सागर निवासी 61 वर्षीय बलिराम कुशवाहा का ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिवार ने अंगदान का फैसला लिया था, जिससे दुसरों की जान बचाई जा सके। उनके द्वारा दान किए गए हार्ट को भोपाल एम्स में भर्ती मरीज को प्रत्यारोपित किया गया।



महाकुंभ से टैंकर में भोपाल लेकर आए गंगाजल

नरेला के हर घर में होगा गंगा जल का वितरण

भोपाल.(निप्र)। प्रयागराज महाकुंभ के मौके पर श्रद्धाल गंगा में डबकी लगाकर पण्य अर्जित कर रहे हैं। लेकिन कई श्रद्धालु प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास



सारंग ने बड़ी पहल करते हुए गंगा जल का टैंकर मंगाया और इस गंगा जल का घर-घर वितरण किया जाएगा। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से विश्वास सारंग विधायक हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के निवासियों को गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयागराज से एक टैंकर में गंगाजल मंगाया है। यह टैंकर सोमवार को भोपाल पहुंचा। इस मौके पर मंत्री सारंग ने कहा है कि सनातन का सबसे बड़ा महापर्व कुंभ का गंगाजल टैंकर के माध्यम से हम भोपाल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हर सनातन धर्मावलंबी का यही प्रयास रहता है कि वह कुंभ के मौके पर गंगा नदी में डुबकी लगाए। बहुत से लोग प्रयागराज पहुंचते हैं और बहुत से नहीं पहुंच पाते हैं।

राष्ट्रीय खेलों में मप्र के खिलाडियों का शानदार प्रदर्शन

मोपाल,(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। खेलो में भी मध्यप्रदेश इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के प्रतिमावान खिलाडियों ने 51 पदक जीत कर देशभर में चौथा स्थान हासिल किया है। यह मध्यप्रदेश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने मध्यप्रदेश का गौरव बढाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब राष्ट्रीय खेलों में सिर्फ ५ दिन शेष हैं। हाल ही में नीलु यादव ने अपने बलबुते पर स्वर्ण पदक जीता है। इसे मिलाकर अब हमारे पास २१ गोल्ड हो गए। राष्ट्रीय खेलों का समापन १४ फरवरी को हल्द्वानी में होगा। गत २८ जनवरी से अब तक कई प्रतियोगिताओं के निर्णय हो चुके हैं और अभी कई खेल प्रतियोगिताएं जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय खेल खत्म होते-होते अभी और भी पदक मध्यप्रदेश की झोली में

(₹ in tacs)

ArihantCapital

ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED

(Member of BSE, NSE, NCDEX, MCX, DP-NSDL & CDSL)

CIN- L66/20MP1992PLC007/62. Emait compliance/barihantcapital.com, website: www.arihantcapital.com Regd. Office: 6, Lad Colony, Y. N. Road , Indore - 452001, Phone No: 0731-4217100 Fax: 0731-4217199

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2024

			Quarter Ender	d	Nine Mon	Year Ended	
S. No.	Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
NO.	2555172.024	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total income from Operations	5178.82	7637.94	7265.63	20097.70	17141.69	23514.36
2.	Profit / (Loss) before Share of Profit / (Loss) of Associates, Tax & Exceptional Item	1123.18	2403.89	2475.76	5928.64	5825.14	9058.47
3.	Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Item	1297.26	2539.36	2569.91	6346.81	6007.46	9268.75
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items & Minority Interest)	1225.41	1993.99	1958.72	5100.15	4584.99	7051.04
5.	Total Comprehensive Income for the period	1228.43	1996.85	1958.82	5103.84	4586.46	7012.03
6.	Paid-up Equity Share Capital	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13
2.19	(Face Value Per Share)	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of Previous Accounting Year		14	7.0			
8.	Earnings Per Share (₹)						
	Basic & Diluted EPS (₹) Excluding extraordinary items	1.18	1.92	1.88	4.90	4.41	6.77
	Basic & Diluted EPS (₹) Including extraordinary items	1.12	1.83	1.88	4.67	4.41	6.77

Date : February 10, 2025

4,513.17

10.07

9,81

9.16

- 1. The above Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the Meeting held on February 10, 2025. The Statutory Auditors have conducted Limited Review of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.
- The Consolidated Financial Results for the Quarter ended December 31, 2024 include the following entities of the group: (i) The Consolidated Results of the Company include unaudited results of the subsidiaries - Arihant Futures and Commodities Limited (100%), Arihant Financial Services Limited (100%), Arihant Insurance Broking Services Limited (100%) (till 24th October, 2024), Arihant Capital (IFSC) Limited (100%)
- been consolidated as associate, under equity method of accounting as per Indian Accounting standard. The Company has sold entire shareholding of its wholly owned subsidiary Arihant Insurance Broking Services Limited (AIBSL) on October 24, 2024 for a total consideration of ₹438.07 Lacs. The Company has recognized gain of ₹329.90 lacs in exceptional item in the

(ii) The Management certified the financial results of associate, Electrum Capital Private Limited (27.23%), in India. The financial result of Electrum Capital Private Limited does not constitute a material component of the consolidated financial results and these have


- Consolidated Financial Statements. During the Quarter ended September 30, 2024, the company has issued 50,00,000 (Fifty Lakh) Convertible Warrants on a preferential basis at an issue price of ₹ 68.50 per warrant to entities belonging to promoter group approved by Board of Directors in their meeting held on May 25, 2024 and approved by members at their Extra Ordinary General Meeting held on June 21, 2024, and consequent to the in-principal approval granted by BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited vide their respective letters dated August OS, 2024 and August 02, 2024 respectively. Each Convertible Warrant entitles the holder to convert one (1) warrant into one (1) equity share
- 5. During the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2024, the company redeemed 1932 no. of Non-Convertible Secured 9.5% Debentures having face value of ₹ 1,00,000/each amounting of ₹1932 lacs which was repayable at the expiry of term of 1 year.
- 6. Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year

Key Standalone Financial Information is given belo

53	Particulars		Quarter Ended				Year Ended	
No.		Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1.	Total Income from Operations	5090.35	7372.12	7106.74	19596.46	16652.63	22893.53	
2.	Profit Before Tax	1460.18	2281.88	2393.70	6055.15	5573.39	8699.13	
3.	Profit After Tax	1064.64	1765.89	1801.41	4538.18	4221.33	6583.51	

and on the company's website viz. www.arihantcapital.com and can be accessed by scanning the Quick Response Code provided below.





By or on behalf of the Board Sd/-

Ashok Kumar Jain (Chairman & Managing Director) DIN: 00184729

ब्रांड कॉन्सेप्टस लिमिटेड

रजि. कार्यालयः चौधो मॅजिल, उनो बिजनेस फर्क, इंटीर बायपास रोड, सहारा सिटी के सामने, बिचीली मर्दाना, इंदौर मध्य प्रदेश भारत. 452016 मीआईएन: 1.51909MP2007PLC066484.

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए स्टेंडअलोन असंबद्ध विनीय परिणाम

J.	(लाख रुपये में									
			क्वार्टर एंडेड		नाइन म	ईयर एडेड				
孒.	विवरण	31/12/2024 anadf82s	30/09/2024 arealf8≥s	31/12/2023 arealf82x	31/12/2024 araiff82x	31/12/2023 arraff82x	31/03/2024 affilits			
1	परिचालन से कुल आम	6,702.31	7,073.31	6,594,11	20,724.30	19,366.55	25,200.18			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर और असाधारण गर्दों से पहले)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44			
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मटों के बाद)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44			
4	कर के पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के पश्चात)	178.41	178.09	306.16	528.67	989.28	1,095.85			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें अवधि के लिए लाभ (कर के बाद)	VCS8075	25/802008	1581000	-50000	0.00011	Application of the Parket			
	और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है)	188.32	169,19	308.03	533.37	993.45	1,103.29			

2.76 8.92 1.55 1.49 4.61 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

1.59

	- 66		क्वार्टर एंडेड	30 H	नाइन म	थ एंडेड	ईयर एंडेड
西.	विवरण	31/12/2024 ਅਜਮੀਤਿਟੇਫ	30/09/2024 ਅਜ਼ਮੀਵਿਟੇਫ਼	31/12/2023 aradf8bbs	31/12/2024 अनआहिटेड	31/12/2023 অনপায়িকৈ	31/03/2024 alfabs
1	परिचालन से कुल आप	6,702.31	7,073.31	6,594.11	20,724.30	19,366.55	25,200.18
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर और असाधारण गर्दों से पहले)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	179.69	270.94	467.23	692.78	1,487.93	1,659.44
4	कर के पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण गर्दों के पश्चात)	178.41	178.09	306.16	528.67	989.28	1,095.85
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शांत्रिल हैं)	188.32	169.19	297.70	533.37	972.45	1,103.29
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मृत्य @ 10 शपये/शेयर)	1,121.78	1,121.78	1,110.78	1,121.78	1,110.78	1,113.28
6 7 8	पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मृल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व। प्रति शेवर आय (अशाधारण गर्दी से पहले) (रु. 10/- प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)		*				4,513.17
	क) बेशिक	1.59	1.52	2.74	4.73	8.96	10,07
П	बी) पातल	1.55	1.49	2.67	4,61	8.73	9.81

नोट: १. उपरोक्त परिचाम लेखा परीका समिति द्वारा समीका किए जाने और 10 फरवरी, 2025 को आयोजित आपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद। 2. उपरोक्त 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन और समेकित विशीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अर्क है, जैसा कि सेवी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनिधम, 2015 के निधम 33 के तहत स्टॉक एक्सकेंजों में दायर किया गया है। इन विलीध धरिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.brandconcepts.in पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए क्यूआर

दिनांक: 10 फरवरी, 2025 स्थानः इंदौर

कोड को स्कैन करके इसे एक्सेस किया जा सकता है:

ब्रांड कॉन्सेप्ट लिमिटेड के लिए प्रतीक माहेश्वरी प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00039340